



CIN: L74110DL2007PLC396238

www.integraessentia.com cs@integraessentia.com



Unit No. 607, 6th Floor, Pearls Best Height-II, Netaji Subhash Place, New Delhi-110034, IN



February 09, 2025

To

Listing Department BSE Limited Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 Scrip Code: 535958 Listing Department NSE Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051 Symbol: ESSENTIA

Sub: Newspaper Advertisement of Unaudited Financial Results of the Company for the Ouarter and Nine Months ended December 31, 2024.

Dear Sir/Ma'am,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the publication of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2024, as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated February 09, 2025 in compliance with the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We request you to kindly take the above information on record and oblige.

Yours faithfully,

For & on behalf of Integra Essentia Limited

Pankaj Kumar Sharma Company Secretary & Compliance Officer

FE SUNDAY

1480000/-

1026000/-

148000/-

102600/-

Date & Time of e-Auction: 12/03/2025 at 11:00 AM to 01:00 PM

VANI COMMERCIALS LIMITED Regd. Office: Khasra No. 19/4, Kamruddin Nagar, Near Butterfly Sr. Sec School. Najafgarh Road, Nangloi, Delhi-110041 CIN: L74899DL1988PLC106425 E-Mail Id: info@vanicommercials.com

Ph. No.: +91-9560066230 NOTICE OF ANNOUNCEMENT OF RESULT OF E-VOTING/ REMOTE E-VOTING AT THE EGM OF THE COMPANY

In terms of Sections 96, 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, a amended, read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in compliance with applicable Regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, approval of the members was sought by means of E-Voting/Remote E-Voting The Company had provided E-Voting as well as Remote E-Voting facility to the members to cast their votes on Special Resolutions, proposed in Notice of the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) dated Wednesday, 15th January, 2025 The Board had appointed Mr. Shailendra Kuma Roy, Company Secretary in Practice as the Scrutinizer for conducting the E-Voting/Remote E-VotingProcess

The Scrutinizer has carried out the scrutiny of a the electronic votes received up to the last date of receipt i.e. Friday,7th February, 2025 till 5:00 P.M. and also the E-voting done at the EGM and has submitted his report on Saturday, 8th February, 2025 to the Board of Directors of the Company

Based on the Scrutinizer's Report dated Saturday, 8th February, 2025 the Board has declared the result of EGM as under:

Particulars of the Resolutions	% of Total Valid Votes cast in favour o the Resolution
Special Resolution To appoint Mr. Gaurav Malhotra (DIN: 07351641) as an Independent Director of the Company	100
Special Resolution To appoint Mrs. Ishita Jindal (DIN: 10907315) as an Independent Director of the Company	100
	Resolutions Special Resolution To appoint Mr. Gaurav Malhotra (DIN: 07351641) as an Independent Director of the Company Special Resolution To appoint Mrs. Ishita Jindal (DIN: 10907315) as an Independent

the resolution as set out in the Notice of EGM of the Company dated 15th January, 2025 are deemed to have been duly approved by the members with requisite majority on Saturday, 8th February, 2025 being the last date specified by the Company for Remote E-Voting process and E-voting done by the members present at the EGM held on Saturday, 8th February, 2025. The Results of the E-Voting/ Remote E-Voting were declared on Saturday, 8th February, 2025 The Results along with Scrutinizer's Report are available at the registered office of the Company. The same are also hosted on the Company's www.vanicommercials.com, on the website of Skyline Financial Services Private Limited Registrar and Share Transfer Agent of the ompany, https://www.skylinerta.com_and_ar also available on the website of BSE Limited https://www.bseindia.com

By the order of the Board of Vani Commercials Limited Ishita Agarwal Company Secretary Place: New Delhi & Compliance Office Date: 08.02.2025 Membership No. A65528

Particulars

APPENDIX -IV-A E-AUCTION SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY (IES)

E-Auction-Sale Notice for Sale of Immoveable Assets Under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) @ pnb Housing

Registered Office: - 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001, Phones:-011-23357171, 23357172, 23705414, Web: - www.pnbhousing.com Green Park Branch: PNB Housing Finance Ltd. Building No. S-8, Uphar Cinema Complex, Green Park extn. New Delhi-110016

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) & guarantor(s) indicated in Column no-A that the below described immovable property (ies) described in Column no-D mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/Physical Possession of which has been taken (as described in Column no-C) by the authorized Officer of M/s PNB Housing Finance Limited/Secured Creditor, will be sold on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS and WHATEVER THERE IS BASIS" as per the details mentioned below. Notice is hereby given to borrower(s)/mortgagor(s)/Legal Heirs, Legal Representative, (whether Known or Unknown), executor(s), administrator(s), successor(s), assignee(s) of the respective borrowers/mortgagor(s)/since deceased) as the case may be indicated in Column no-Aunder Rule-8(6) & 9 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 amended as on date. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in M/s PNB Housing Finance Limited/secured creditor's website i.e. www.pnbhousing.com.

	Borrower/Co-Borrower/ Guarantor(s)/Legal heirs (A)	Amount & Date (B)	Possession (C)		Price (RP) (E)	(10% of	Submission of Bid (G)				Knows Escumbe rances/Court Cases if any (K)
- 1	HOU/FBD/0719/731177, B.O.: Greenpark, Bijendra Kumar Das / Priyadarshini Das			Tower B2, 12,1201, Habitat 78 Affordable Housing, Sector 78 Faridabad Haryana-121007	Rs. 2366000	Rs. 236600	11-03-2025	Rs. 10000	03-03-2025 10.00 AM 5.30 PM	12-03-2025 02:00 PM 03:00PM	Not Known
1	"Together with the further interest	@18% p.a. as a	applicable, in	ncidental expenses, cost, charges etc. incurred up to the date of	payment a	nd/or reals	zation thereo	f. ** To the t	est knowledo	e and inform	nation of the

authorized Officer of PNB Housing Finance Limited, there are no other encumbrances/ claims in respect of above mentioned immovable/secured assets except what is disclosed in the column no-K. Further such

encumbrances to be catered/paid by the successful purchaser/bidder at his/her end. The prospective purchaser(s)/bidders are requested to independently ascertain the veracity of the mentioned encumbrances.

1. As on date, there is no order restraining and/or court injunction PNBHFL/the authorized Officer of PNBHFL from selling, alienating and/or disposing of the above immovable properties/secured. issets. 2. The prospective purchaser/bidder and interested parties may independently take the inspection of the pleading in the proceedings/orders passed etc. if any, stated in column no-K. Including out not limited to the title of the documents of the title pertaining thereto available with the PNBHFL and satisfy themselves in all respects prior to submitting tender/bid application form or makin ffer(s). The bidder(s) has to sign the terms and conditions of this auction along with the Bid Form.3. Please note that in terms of Rule 9(3) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the bidder(s) (the purchaser is legally bound to deposit 25% of the amount of sale price, (inclusive of earnest money, if any, deposited) on the same day or not later than next working day. The sale may be confirmed in favour of (bidder(s) only after receipt of 25% of the sale price by the secured creditor in accordance with Rule 9(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The remaining 75% of the sale consideration amount has to be deposited by the purchaser within 15 days' from the date of acknowledgement of sale confirmation letter and in default of such deposit, the property/secured asset shall be resold. 4. C1 INDIA PRIVATE LIMITED would be assisting the Authorised Officer in conducting sale through an e-Auction having its corporate office at Plot No. 68, 3rd Floor, Sector 44, Gurgaon, Haryana 122003 Website- www.bankeauctions.com. For any assistance related to inspection of the property or obtaining the Bid Documents and for any other query or for registration, you have to co-ordinate with Neeraj Kumar Contact Number 1800 120 8800, is authorised person of PNBHFL or refer to www.pnbhousing.com Place: Greenpark, Dated: 09.02.2025 Authorized Officer, M/s PNB Housing Finance Limited

> **INTEGRA ESSENTIA LIMITED** CIN: L74110DL2007PLC396238

REGD OFF: 607, 6th Floor, Pearls Best Height -II, Netaji Subhash Place, North West Delhi, Delhi, India, 110034 Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Month Ended 31st December, 2024, (All figures are in labbe except otherwise stated)

			CONSOI	IDATED					STAND	ALONE		
	C	Quarter Ended Ni			ths Ended	Year Ended	Quarter Ended			Nine Mon	Year Ended	
Particulars	31-12-2024	30-09-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2023	31-03-2024	31-12-2024	30-09-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2023	31-03-2024
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income	12641.016	13,125.98	6,383.75	34,576.61	19,499.34	29,562.38	12,641.02	13,125.98	6,383.75	34,576.61	19,499.34	29,562.38
Total Expenses	4524	13,085.42	6,288.42	34,032.74	18,248.20	27,665.88	12,477.00	13,060.71	6,288.42	34,032.74	18,248.20	27,665.88
Profit Before Exceptional Items and Tax	188.72913	40.56	95.32	543.87	1,251.13	1,896.51	164.02	65.27	95.32	543.87	1,251.13	1,896.51
Share in Profit (Loss) in Associate Entity accounted for Using Equity Method	-3.61	-3.20	-0.41	-6.03	14.31	14.28						
Profit/ (Loss) Before Tax	185.12004	37.36	94.91	537.85	1,265.44	1,910.79	164.02	65.27	95.32	543.87	1,251.13	1,896.51
Tax Expense/(Benefits)	61.35	9.13	24.00	148.99	314.89	367.32	55.43	16.76	24.00	150.51	314.89	368.39
Profit/(Loss) for the period	123.76933	28.23	70.92	388.85	950.56	1,543.46	108.59	48.51	71.33	393.36	936.25	1,528.11
Other Comprehensive Income	0.11	0.19	24.57	1.81	73.71	·	0.11	0.19	24.57	1.81	73.71	-
Total Comprehensive Income for the period	123.88	28.42	95.48	390.66	1,024.26	1,543.46	108.70	48.70	95.89	395.17	1,009.95	1,528.11
Paid up equity share capital	10,676.91	10,676.90	4,570.33	10,676.91	4,570.33	9,140.66	10,676.91	10,676.90	4,570.33	10,676.91	4,570.33	9,140.66
Other Equity excluding Revaluation Reserves						2,571.16						2,549.63
Earnings per Equity Share of 1 each	0.01	0.00	0.02	0.04	0.22	0.28	0.01	0.00	0.02	0.04	0.22	0.27

The above Standalone Financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting at the Registered office held on 07 January 2025. The Statutory Auditor of the Company has issued the Limited Review report on above Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Month Ended 31st December, 2024 in term of the Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The results of the Company are also available for investors at www.integraessentia.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Integra Essentia Limited Deepak Kumar Gupta (Whole time Director cum CEO)

(INR in Lacs)

Nine Months Ended Year Ended

Place: Delhi Date: 07 February 2025

Akme Fintrade (India) Limited CIN: U67120RJ1996PLC011509 Registered office: AKME BUSINESS CENTRE (ABC), 4.5 SUBCITY CENTRE SAVINA CIRCLE, OPP. KRISHI UPAZ MANDI, UDAIPUR RJ 313002 IN, E-mail: cs@akmefintrade.com, Cont. No 0294-2489501

EXTRACTS OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FORTHE QUARTERAND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31,2024 AS PER IND AS (DIVISION III)

Quarter Ended

	Latriculars		Zuditul Ellas		2000000	City Estable	1001 21100
		2024	30 September, 2024	2023	December 31, 2024	December 31, 2023	March 31 2024
	19 to 10 to	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income From Operations	2809.67	2402.21	1991.71	7344.82	5344.69	7350.12
2	Net Profit/(loss)for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1188.28	1009.71	617.99	3108.59	1516.17	2375.63
3	Net Profit/(loss)for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1188.28	1009.71	617,99	3108.59	1516.17	2375.63
4	Net Profit/(loss)for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	893.27	814.36	560.03	2568.67	1224.68	1852.92
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit/loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	893.27	814.36	558.51	2568,67	1223.16	1852.84
6	Paid up Equity Share Capital (face value Rs. 10/- each)	4267.50	4267.50	3167.50	4267.50	3167.50	3167.50
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve)	32314.90	31428.33	18526.69	32314.90	18526.69	19156.37
8	Net Worth	36582.40	35695.83	21694.19	36582.40	21694.19	22323.87
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	NIL	NIL	19518.94	NIL	19518.94	20478.2
10	Outstanding Redeemable Preference Shares *	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
11	Debt Equity Ratio * Earnings Per Share (face Value of Rs. 10/- each.)	0.66	0.57	0.90	0.66	0.90	0.92
	i) Basic EPS	2.03	1.79	1.40	6.54	3.87	5.85
-000	ii) Diluted EPS	2.03	1.79	1.40	6.54	3.87	5.85

Note: a) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their meeting held on 07.02.2025

NA

NA.

NA

NA

NA

NA

- b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote
- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable

d) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter/nine

months ended December 31, 2024 as per IND AS NBFC (Division III) filed with BSE Limited and NSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Financial Results for the quarter/nine months ended December 31 2024 as per IND AS NBFC (Division III) is available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, NSELimited https://www.nseindia.com/and Company's website at https://www.akmefintrade.com/financials/. The same can be accessed by scanning the QR code

provided below. For, Akme Fintrade (India) Limited



Place: New Delhi

Date: 08.02.2025

12 Capital Redemption Reserve

14 Debt Service Coverage Ratio

13 Debenture Redemption Reserve

Place: Udaipur

Nirmal Kumar Jain Chairman & Managing Director DIN:00240441



IEC EDUCATION LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC061053

REGISTERED OFFICE: E-578, FIRST FLOOR,

GREATER KAILASH PART-II, NEW DELHI-110048 Website: WWW.IECGROUP.IN | Email: CS@IECGROUP.IN

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

Dear Shareholders.

The Board of Directors of the Company in their meeting held on Saturday, February 08, 2025, approved the unaudited standalone & Consolidated financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2024 ("Financial Results").

The Financial Results along with Limited Review Report, have been uploaded on the website of the Company at:

https://www.iecgroup.in/_files/ugd/2f596c_0cd6c760fb0e4fc987959a9d4 e650b92.pdf

the Financial Results can also be accessed by scanning the QR Code below:



For and on behalf of the Board of Directors of

IEC Education Limited

Sd/-**Sunil Kumar**

DIN: 08463423

|Date: February 08, 2025 Director



CIN-L24112UP1992PLC014478 Village Pallawala, Tehsil Dhampur, District Bijnor (U.P.)- 246761



Place: New Delhi



@www.dhampurgreen.com

				Standalone			Consolidated					Standalone	Consolidated
S.	Parrticulars		Quarter ended		Nine Mon	Nine Month Ended		Quarter ended		Nine Month Ended		Year	ended
No.	Parriculars	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited	Audited
	I	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.03.2024
1	Total Income from Operations	1043.81	737.74	694.79	2385.63	1581.64	1142.40	841.65	853.97	2685.54	2072.09	1581.64	2923.08
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	83.57	198.17	71.38	355.41	226.12	95.15	151.43	73,43	318.85	231.89	37.87	81.44
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	83.57	198.17	71,38	355.41	226,12	95.15	151.43	73,43	318.85	231.89	32.27	75.84
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#	64.45	144.35	52.82	265.61	167.32	73.38	109.8	54.39	238.92	172.29	6.39	75.84
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	64.45	144.35	52.82	265.61	167.32	73.38	109.8	54.39	238.92	172.29	6.39	92.66
6	Equity Share Capital	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		7030780		600000						5		1000000
8	"Earnings Per Share (Equity Share of Rs. 10/- each) (forcontinuing and discontinued operations) - 1.Basic: 2. Diluted:"	"0.81 0.81 "	"1.82 1.82 "	"0.67 0.67 *	"2.63 2.63"	" 2.11 2.11 "	"0.93 0.93 "	" 1.39 1.39"	" 0.68 0.68"	"3.02 3.02 "	"2.17 2.17 "	"0.08 0.08"	*1.17 1.17*

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 08.02.2025 the Statutory Auditor of the company have issued a Limited Review report on the un-Audited standalone and consolidated financial result for the Quarter & Nine Month ended 31st December, 2024

the above is an extract of the details format of the Audited standalone & Consolidated financial result filled with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the full format of the Audited standalone & Consolidated financial result are avillable on the website of the stock Exchange at www.bseindia.com and on the company's wesite www.dhampurgreen.com

Managing Director Sorabh Gupta

For Dhampure Speciality Sugars Ltd.



Inspection Date & Time: 05/03/2025 at 11:00 AM to 03:00 PM

SONIYA DEVI (Co-Borrower) and vide application no GG931284

Twenty Four Only) as on 11-Jul-22

Four Only) as on 12-Apr-24

Last Date of submission of Bid/EMD: 10/03/2025 at 04:00 PM

DMI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED

Express Building, 3rd Floor, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 Tel.: +91-11-41204444, Fax: +91-1141204000. Email: rahul.gupta@dmihousingfinance.in : deepak.rana@dmihousingfinance.in www.dmihousingfinance.in

E - AUCTION SALE NOTICE (under SARFAESI Act) SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

 -Auction Sale notice for Sale of Immovable Secured Assets under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. lotice is hereby given to the public in general and to the Borrower/s and Guarantor/s in particular, by the Authorized Officer, as mentioned below that the symbolic possession of the under mentioned properties mortgaged to DMI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED (Secured Creditor) had already been taken over under provisions of section 13 (4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement o Security Interest Act, 2002. Whereas the Secured Creditor acting through its Authorized Officer, in exercise of its powers under Section 13(4) or Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI), will put the below mentioner property to E-Auction for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and costs etc. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities. The under mentioned properties will be sold by way of "Online E-Auction through website https://www.bankeauctions.com

Name of **Details of Secured Assets Outstanding Amount** Reserve Price EMD 10% Borrower/Guarantor SHALINI SAHIL In Loan Account No. HFC0020697068 Plot No. 38-A, Second floor (RHS Without roof 2498500/-249850/ Sahil Sanjay, Neha Neha and vide Application No. GG1236302 | right) Gall no- 10, Khasra no80/1, Village Rs. 2366093/- (Rupees Twenty Three Hastal Known as Mohan Garden Pratap) (Co-Borrower) Lakh Sixty Six Thousand Ninety Three | Enclave Uttam Nagar, New Delhi- 110059 only) as on 19-Apr-24 Symbolic Possession Date: 22th Oct 2024 In Loan Account No. HFC0008874542 House No.484, Khasra No.1342/3, Khanna MANOJ FAQIAR CHAND 396000/ 3960000/-Sharda Manoj Kumar (Co- and vide application no GG1199381 Nagar Hadbast Village-Loni, Pargana & Tehsil Rs. 2438848/- (Rupees Twenty Four Loni, Ghaziabad Uttar Pradesh Borrower) Lakh Thirty Eight Thousand Eight Symbolic Possession Date: 13th March 2024 Hundred Forty Eight Only) as on 07 Nov-23 In Loan Account No. HFC0000316573 Part Of Kh No- 453mi, Mohalla- Indrapuri SUDHA DEVI 171000/ 1710000/-Krishna Pal (Co-Borrower) and vide application no GG811979 Bhuprndrapuri Gali No-9, Modi Nagar, Rs. 836279/- (Rupees Eight Lakh) Ghaziabad Thirty Six Thousand Two Hundred Symbolic Possession Date: 09th Sep 2024 Seventy Nine Only) as on 20-Jan-23 In Loan Account No. HFC0000394924 Plot No 61C, Vinayak Enclave-I, Khasra No. GEETA DEVI 232560/-2325600/-Singh (Co- & HFC0000079786 and vide 12K, Dadri, Village Chhapraula, Pargana & Maharai application no GG901942 & 803139 Tehsil Dadri, Distt, Gautam Budh Nagar Rs. 751867/- (Rupees Seven Lakh Fifty One Thousand Eight Hundred Symbolic Possession Date: 19th July 2023 Sixty Seven Only) & Rs.525792/- (Rupees Five Lakh Twenty Five Thousand Seven Hundred Ninety Two Only) as on 20-Apr-23 In Loan Account No. HFC0001707518 Plot No. 189, Khasra No. 341, Block-2, Shri Ved

RAKESH KUMAR

To the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance on any property. However, the intending bidder should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property(ies) put on auction and claims/ rights/ dues/ effecting the property, prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorized Officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third-party claims/ rights/ dues/outstanding statutor It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The

Rs. 594524/- (Rupees Five Lakh) Jwalapur Nagar Nigam, Haridwar

Four Thousand Two Hundred Twenty Ghaziabad Uttar Pradesh-201102

Suman Devi (Co-Borrower) and vide application no GG1150463 unit), Plot No.B-189B, Khasra No.235, Rail

Ninety Four Thousand Five Hundred Symbolic Possession Date: 28th Dec 2022

In Loan Account No. HFC0006214881 Flat No. GF-3, Stilt/ Ground floor (Back RHS

Rs. 454224/- (Rupees Four Lakh Fifty Vihar, Village- Sadullahbad, Pargana Ioni,

City, Village Ahmedpur Grant, Pargana

Symbolic Possession Date: 17th Aug 2024

inspection of property(ies) put on auction will be permitted to interested bidders at sites as mentioned against each property description. The interested bidders shall submit their Earnest Money Deposit (EMD) details and documents through Web Portal https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com) through Login ID & Password. The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password. uploading data, submitting Bid Documents, Training/ Demonstration on Online Inter-se Bidding etc., may contact M/s. C1 India Pvt. Ltd., Plot No 68, Sector 44 Gurgaon, Haryana. Pin: 122003, e-mail ID: support@bankeauctions.com, andhra@c1india.com Contact No 7291981124,25,26 Contact person: Mr. Dharani Krishna Contact No. +919948182222 and for any property related query may contact Authorized Officer: Mr. Rahul Gupta, Mobile No: 9211111430; e-mail ID: rahul gupta@dmihousingfinance.in & Mr. Deepak Rana, Mobile No:

9650012165; e-mail ID: deepak rana@dmihousingfinance in during the working hours from Monday to Friday The EMD shall be payable through NEFT/ RTGS (receipt of which shall be enclosed with the bid) latest by 10th March 2025 till 04:00 PM in the following Account with HDFC Bank Ltd. at Bank house Branch, Gurugram, Account No. 00030330020098, Name of the A/C: DMI Housing Finance Private Limited, IFSC Code: HDFC0000572 or by way of Demand Draft / Pay Order drawn in favour of 'DMI Housing Finance Private lding, 3rd Floor, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 dressed to Authorised Officer, at Express Bu

The assets will not be sold below the Reserve Price. The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorized Officer has

the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction without assigning any reason thereof. The EMD of successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be retained within working days from the date of auction. The EMD shall not bear any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price adjusting the EMD already paid, immediately i.e. on the same day or not later than next working day and the balance 75% of the sale price within 15 days from the date of confirmation of sale or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorised Officer FOR DETAILED TERMS & CONDITIONS PLEASE REFER OUR WEBSITE https://www.dmihousingfinance.in AND

https://www.bankeauctions.com BEFORE SUBMITTING BIDS AND TAKING PART IN THE E-AUCTIO The Borrowers / Guarantors may treat this as notice u/r 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and are hereby given a last and final opportunity to discharge the liability in full as stated above within 30 days from the date of this notice failing which the assets will be sold as per terms and conditions mentioned above.

Sd/- (Authorised Officer) Place: DELHI NCR Date: 8th February 2025 **DMI Housing Finance Private Limited**

TWENTY-FIRST SALE NOTICE

RELIABLE FINANCE CORPN PRIVATE LIMITED (UNDER LIQUIDATION) CIN: U74899DL1956PTC002640

(The Corporate Debtor)

Reg. Off.: 106, T-10 Main Patel Road, Guruariun Nagar, Shadi Khampur New Delhi-110008, India Email ID: reliablefinance.liquidation@gmail.com Liquidator: Satvendra Sharma

Liquidator Address: M-3, Block No. 51, Anupam Plaza- II First Floor, Above Axis Bank Sanjay Place, Agra, Uttar Pradesh-282002, India Email ID: satyendrasirp@gmail.com,

E-Auction Sale of Corporate Debtor under Regulation 32 of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016 Date and Time of Auction: 07.03.2025 from 2:00 P.M. to 3:00 P.M.

(With unlimited extension of 5 minutes each)

NOTICE is hereby issued for sale of Assets of Corporate Debtor on standalone basis or Sale of Corporate Debtor on going concern basis under Regulation 32 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, in possession of the Liquidator, appointed vide order dated 15th November, 2022 passed by Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi, Bench VI, New Delhi and to submit the expression of interest (EOI) within 14(Fourteen) days from the date of issue of public notice i.e. 23.02.2025

The sale of Company will be done by the undersigned through the e-auction platform https://ncltauction.auctiontider.net Description Manner of Sale S No. Reserve Price(INR) EMD (INR) Bid Incremental Value 4.32.21.988.16 /-40,00,000.00 /-4,00,000.00 /-Non-current investments (Rupees Four Crore Thirty- Two Lakh except Akul Securities Pvt Sale of Assets of (Rupees Forty (Rupees Four

Corporate Debtor Twenty- One Thousand Nine Hundred Lakh Only) Lakh Only) on standalone basis Eighty- Eight and Sixteen Paisa Only) under Regulation Inventories except 4,00,32,280.61 /-4,00,000.00 /-40,00,000.00 /-32(c) IBBI shares of India Stuffvarn Ltd. (Rupees Four Crore Thirty- Two (Liquidation (Rupees Forty (Rupees Four Carewell Exim Ltd. Thousand Two Hundred Eighty and Regulations, 2016) Lakh Only) Lakh Only) Intellectual Builders Pvt Ltd Sixty- one Paisa and Yuvraj Exports Pvt Ltd 5,80,000.00 /-Entire Company with all Assets 5,85,61,391.11 58,00,000.00 /-Corporate Debtor are as per asset memorandum (Rupees Five Crore (Rupees Five (Rupees Fiftyas going concern on the basis of going concern Eighty- Five Lakh Eight Lakh Lakh Eighty pursuant to the except shares of India Sixty- one Thousand Three Hundred Thousand Regulation 32(e) of Stuffyarn Ltd, Carewell Exim Ninety- One and Eleven Only) the IBBI (Liquidation) Ltd. Intellectual Builders Pvt Paisa Only) Regulation, 2016 Ltd, Yuvraj Exports Pvt Ltd and Akul Securities Pvt Ltd NON CURRENT INVESTMETS (UNQUOTED SHARES) ON STANDALONE BASIS PURSUANT TO REGULATION 32(a) OF IBBI

(LIQUIDATION) PROCESS REGULATIONS, 2016 No. of shares with face value Reserve Price (INR) EMD (INR) Bid Incremental Value S No. | Particulars Akul Securities Pvt Ltd Sold at 11th Sale Notice B. ECHT Finance Ltd 35,000.00 8,72,500 shares @ 10/-35,87,750.94 3,50,000.00 18,000.00 18,27,139.44 Euro Asia India Corporation Pvt Ltd 4,32,300 shares @ 10/-1,80,000.00 Gunny Auto & Finance Pvt Ltd 17,33,900 shares@10/-75,90,144.07 7,50,000.00 75,000.00 48,000.00 E. Microland Developers Pvt Ltd 1,50,000 shares @10/-48,77,395.38 4,80,000.00 NCV Securities Pvt Ltd 3,14,355.62 3,000.00 75,000 shares @10/-30,000.00 G. Paschim Finance & Chit Fund Pvt Ltd 71,37,238.76 7.00.000.00 70.000.00 8,00,000 shares @10/-Pelicon Finance &Leasing Pvt Ltd 1,96,500 shares @ 10/-8,00,417.03 80,000.00 8,000.00 Saterling India Capital Services Pvt Ltd 8.46.000 shares @10/-7.60.000.00 76,000.00 76,15,376.85 1,11,08,187.31 1,00,000.00 10,00,000.00 Utsav Securities Pvt Ltd 1,45,000 shares @10/-15,000.00 VIP Leasing and Finance Pvt Ltd 4,00,000 shares @10/-15,08,636.45 1,50,000.00

15,67,014.11

4,79,33,655.96

No. of shares with face value Reserve Price (INR) EMD (INR) Bid Incremental Value

1,50,000.00

46,30,000.00

15,000.00

INVENTORIES ON STANDALONE BASIS PURSUANT TO REGULATION 32(a) OF IBBI (LIQUIDATION) PROCESS REGULATIONS, 2016

4,05,000 shares @10/-

Total

	2	Quoted Shares	LA.	201	
A.	India Stuffyarn Ltd		Sold at 8th auction	600 600	
B.	Kappac Pharma Ltd	13,500 shares @10/-	377,068.75	37,000.00	3,700.00
C.	Reliance Power Ltd	27 shares @10/-	868.482	80.00	8.00
D.	Tarini Enterprises Ltd	5,040 shares @10/-	298,963.35	29,000.00	2,900.00
		Unquoted Shares	115	450 DM	
E.	Aquarious Fincap & Credit Pvt Ltd	1,44,000 shares @10/-	2,17,15,163.74	20,00,000.00	2,00,000.00
F	Blue bell Finance Limited	300 shares @10/-	16,970.66	1,600.00	160.00
G.	Carewell Exim Pvt Ltd		Sold at 8 th auction	n	
H.	Finage Leasing & Finance India Limited	1,50,000 shares @10/-	13,16,731.30	1,30,000.00	13,000.00
l.	Gracious Portfolio Pvt Ltd	30,000 shares @10/-	3,69,714.28	36,000.00	3,600.00
J	Hibiscus Holdings Pvt Ltd	4,845 shares @10/-	5,45,582.90	50,000.00	5,000.00
K.	Homburg Securities Pvt Ltd	25,000 shares @10/-	66,194.42	6,600.00	660.00
L.	Intellectual Builders Pvt Ltd		Sold at 8 th auctio	n	
M.	Mekaster Finlease Ltd	16,00,000 shares @10/-	81,01,986.88	8,00,000.00	80,000.00
N	Shanta Agencies Pvt Ltd	8,000 shares @10/-	22,59,770.35	2,20,000.00	22,000.00
0.	Star Infovision Pvt Ltd	7,00,000 shares @10/-	61,63,752.18	6,00,000.00	60,000.00
P.	Sterling India Capital Services Pvt Ltd	1,09,600 shares @10/-	4,58,421.05	45,000.00	4,500.00
Q	Twinkle Mercantile & Credits Pvt Ltd	9,608 shares @10/-	7,39,270.22	70,000.00	7,000.00
R.	Wonder Trading Private Limited	6,75,000 shares @10/-	25,70,181.90	2,50,000.00	25,000.00
S.	Yuvraj Exports Pvt Ltd		Sold at 8 th auctio	n	
	45 E	Total	4,50,00,640.47	42,75,280.00	

1. In case any person bids for serial No. 3 i.e. entire company with all Assets as per Asset Memorandum on going concern basis then bid for serial No. 1

2. In case any person bids for serial No. 1 then bid for serial No. 4 will be automatically disqualified.

3. In case any person bids for serial No. 2 then bidder for serial No. 5 will be automatically disqualified.

4. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider M/S E-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger)

6. The qualified bidder may make inspection or due diligence of assets under auction latest by 05.03.2025 and then, will be required to deposit the EMD

applicable and that if found ineligible at any stage, the earnest money deposited shall be forfeited

9. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale may be asked from the liquidator by writing to the following email: reliablefinance.liquidation@gmail.com

Satyendra Sharma, Liquidator Reliable Finance Corpn Private Limited (Under Liquidation)

Date: 08.02.2025

DIN: 00227776

S No. Particulars

Virgin Capital Services Pvt Ltd

Terms and Condition of the E-auction are as under: 2, 4 and 5 will be automatically disqualified.

5. Upon receipt of EOI from the prospective bidder, the liquidator shall declare the qualified bidder on 26.02.2025

7. The prospective bidders shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under section 29A of the Code to the extent

8. Liquidator may extend the date of auction if circumstances warrant in the interest of the Corporate Debtor.

rate of 12%. For further information, the intending bidder may contact undersigned on any working day from Monday to Friday between 11.00 AM to 5.00 PM on or before 05.03.2025

Reg No.: IBBI/IPA-002/IP-N00737/2018-19/12260

Place: Agra New Delhi

10. Payment of balance sale consideration shall be made within 180 days of such demand and payments made after 30 days shall attract interest at

financialexp.epapr.in

INTEGRA ESSENTIA LIMITED

ment of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Month Ended 31st December 2024

		CONSOLIDATED						STAND	ALONE			
	(Quarter Ended Nin				Year Ended	Quarter Ended		ded	Nine Months Ended		Year Ended
Particulars	31-12-2024	30-09-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2023	31-03-2024	31-12-2024	30-09-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2023	31-03-202
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income	12641.016	13,125.98	6,383.75	34,576.61	19,499.34	29,562.38	12,641.02	13,125.98	6,383.75	34,576.61	19,499.34	29,562.38
Total Expenses	4524	13,085.42	6,288.42	34,032.74	18,248.20	27,665.88	12,477.00	13,060.71	6,288.42	34,032.74	18,248.20	27,665.8
Profit Before Exceptional Items and Tax	188.72913	40.56	95.32	543.87	1,251.13	1,896.51	164.02	65.27	95.32	543.87	1,251.13	1,896.51
Share in Profit (Loss) in Associate Entity accounted for Using Equity Method	-3.61	-3.20	-0.41	-6.03	14.31	14.28	-	-	-	-	-	-
Profit/ (Loss) Before Tax	185.12004	37.36	94.91	537.85	1,265.44	1,910.79	164.02	65.27	95.32	543.87	1,251.13	1,896.5
Tax Expense/(Benefits)	61.35	9.13	24.00	148.99	314.89	367.32	55.43	16.76	24.00	150.51	314.89	368.39
Profit/(Loss) for the period	123.76933	28.23	70.92	388.85	950.56	1,543.46	108.59	48.51	71.33	393.36	936.25	1,528.11
Other Comprehensive Income	0.11	0.19	24.57	1.81	73.71	-	0.11	0.19	24.57	1.81	73.71	-
Total Comprehensive Income for the period	123.88	28.42	95.48	390.66	1,024.26	1,543.46	108.70	48.70	95.89	395.17	1,009.95	1,528.11
Paid up equity share capital	10,676.91	10,676.90	4,570.33	10,676.91	4,570.33	9,140.66	10,676.91	10,676.90	4,570.33	10,676.91	4,570.33	9,140.66
Other Equity excluding Revaluation Reserves	-	-	-	-	-	2,571.16	-	-	-	-	-	2,549.6
Earnings per Equity Share of 1 each	0.01	0.00	0.02	0.04	0.22	0.28	0.01	0.00	0.02	0.04	0.22	0.27
The above Standalone Financial results have been reviewed and	recommen	ded by the	Audit Comi	nittee and a	annroved by	v the Board	of Directo	rs at their r	neeting at t	he Registe	red office h	eld on O

For Integra Essentia Limited

DIN: 00057003

Place: Delhi

सार्वजनिक सूचना

[एलएलपी नियम 2009 के नियम 17(1) के अनसार पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, नई दिल्ली के समक्ष चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के मामले में एलएलपी नियम, 2009 के नियम 17 के साथ पठित और

लुमिकाई इंटरएक्टिव ॥ एलएलपी (ABZ-0548)

(ABZ-U348) जिसका पंजीकृत कार्यालय 12/48 डिप्लोमैटिक, 26बी एस.पी. मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110021 में स्थित है, के मामले में

जाने की अनुमति मांगी गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय व प्रस्तावित परिवर्तन से प्रमावित होने की संभावना है, वह **निवेश** शिकायत प्रपत्र दाखिल करके (www.mca.gov.in एमसीए पोर्टल पर जमा कर सकता है या या अपने हित प्रकृति और विरोध का आधार बताते हुए एक हत्कनामें के साथ समर्थित अपनी आपत्तियों को रिजस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पर 4वीं गिजल, आईएफसीआई ट्रॉवर, 61, नेहरू प्लेस **नई दिल्ली - 110019** को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21(इक्कीस) दिनों के भीतर पंजीकत डाक द्वारा भे सकता है, साथ ही इसकी एक प्रति **लुमिकाई इंटरएक्टिव ।** एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के नीचे उल्लिखित पत पर भ एलएलपा क पंजाकृत कायालय क नाच जाल्लाखत पत पर म भेजे। पंजीकृत कार्यालयः 12/48 डिप्लोमैटिक, 26र्ब एस.पी. मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110021

आवेदक के लिए और उनकी ओर लुमिकाई इंटरएक्टिव ।। एलएलपी हस्ताक्षर / सलोनी सहगत (नामित भागीदार दिनांक : 09.02.2025 डीपीआईएनः 06775680 थान : दिल्ली

सार्वजनिक सूचना [एलएलपी नियम, 2009 के नियम 17(1) के अनुसार

पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, नई दिल्ली के समक्ष चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के मामले में एलएलपी नियम. 2009 के नियम 17 के साथ पठित

लुमिकाई इंटरएक्टिव एलएलपी (AAS-7996) जिसका पंजीकृत कार्यालय 26 बी, सरदार पटेल

मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, दिल्ली, 110021 भारत, में स्थित है, के मामले में,

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक एलएलपी ने 31 जनवरी, 2025 को आयोजित नामि रिष्ठार्थन । 31 जन्म १, २८६० मानीदारों की बैठक में पारित महाता के अनुसार एक्सएलपी के समझौते पत्र में परिवर्तन की पुष्टि के लिए एलएलपी अधिनियम २००८ की घारा 13(3) के तहत कंपनी रिजस्ट्रार को आवेदन करने का प्रस्ताव किया है, ताकि इसका पंजीकृत कार्यालय "एनसीट" दिल्ली" राज्य से स्थानांतरित कर "हरियाणा राज्य" में व जाने की अनमति मांगी गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय व से प्रभावित होने की संभावना है. वह **निवेश** शिकायत प्रपत्र दाखिल करके (www.mca.gov.in) एमसीए पोर्टल पर जमा कर सकता है या या अपने हित की प्रकृति और विरोध का आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ समर्थित अपनी आपनियों को रजिस्द्रार ऑफ कंपनीज के पते 4वीं मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेर नई दिल्ली - 110019 को इस नोटिस के प्रकाशन की तारी से **21(इक्कीस) दिनों** के भीतर पंजीकत डाक डारा भे सकता है, साथ ही इसकी एक प्रति **लुमिकाई इंटरएक्टिट** एलएलपी के नीचे उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भ्र भेजे। पंजीकत कार्यालय: 26 बी सरदार पटेल मार चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, दिल्ली, 110021 भारत, आवेदक के लिए और उनकी ओर

लुमिकाई इंटरएक्टिव एलएलर्प हस्ताक्षर / सलोनी सहग दिनांक : 09.02.2025 डीपीआईएनः 06775680 स्थान : दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

[एलएलपी नियम, 2009 के नियम 17(1) के अनुसार] पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, नई दिल्ली के समक्ष चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 एलएलपी अधिनियम 2008 की धारा 13(3) के मामले में एलएलपी नियम, 2009 के नियम 17 के साथ पठित

और लुमिकाई स्पांसर एलएलपी (ABZ-1020)

जिसका पंजीकृत कार्यालय 12/48 डिप्लोमैटिक, 26बी एस.पी. मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110021में स्थित है, के मामले में,

ाद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त रापद्वारा अने जानता के सूर्यता तथा आता है कि उपहार एक्सरणी ने 31 जनवरी, 2025 को आयोजित नानित मागीदारों की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार एक्सरणी के समझौते पत्र में परिवर्तन की पुष्टि के लिए एल्सरणी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के तहत कपनी रिपिस्ट्रार को आयेदन करने का प्रस्ताव किया है, ताकि इसका पंजीकृत कार्यांतय "एनसीटी दिल्ली" राज्य से स्थानांतरित कर "हरियाणा राज्य" में जाने की अनुमति मांगी गई है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय

प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करके (www.mca.gov.in) एमसीए पोर्टल पर जमा कर सकता है या या अपने हित की प्रकृति और विरोध का आधार बताते हुए एक हलफनामें के साथ समर्थित अपनी आपत्तियों को रजिस्ह्रार ऑफ कंपनीज के पते 4वीं मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस नर्द दिल्ली-110019 को इस नोटिस के प्रकाशन की तारिख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है, साथ ही इसकी एक प्रति लुमिकाई स्पांसर एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के नीचे उल्लिखित पते पर भी भेजे। पंजीकृत कार्यालयः 12/48 डिप्लोमैटिक, 26र्ब एस.पी. मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110021 आवेदक के लिए और उनकी ओर

लुमिकाई स्पांसर एलएलर्प हस्ताक्षर / सलोनी सहगढ दिनांक : 09.02.2025 डीपीआईएनः 06775680 स्थान : दिल्ली

CIN: L74110DL2007PLC396238
REGD OFF: 607, 6th Floor, Pearls Best Height -II, Netaji Subhash Place, North West Delhi, Delhi, India, 110034

Statement of Unaudited Consolidate	Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Month Ended 31st December, 2024 (All figures are in lakhs except							cept otherw	≀ise stated)			
		CONSOLIDATED				STANDALONE						
	C	luarter End	led Nine Months Ended		Year Ended	(Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	
Particulars	31-12-2024	30-09-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2023	31-03-2024	31-12-2024	30-09-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2023	31-03-2024
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income	12641.016	13,125.98	6,383.75	34,576.61	19,499.34	29,562.38	12,641.02	13,125.98	6,383.75	34,576.61	19,499.34	29,562.38
Total Expenses	4524	13,085.42	6,288.42	34,032.74	18,248.20	27,665.88	12,477.00	13,060.71	6,288.42	34,032.74	18,248.20	27,665.88
Profit Before Exceptional Items and Tax	188.72913	40.56	95.32	543.87	1,251.13	1,896.51	164.02	65.27	95.32	543.87	1,251.13	1,896.51
Share in Profit (Loss) in Associate Entity accounted for Using Equity Method	-3.61	-3.20	-0.41	-6.03	14.31	14.28	-	-	-	-	-	-
Profit/ (Loss) Before Tax	185.12004	37.36	94.91	537.85	1,265.44	1,910.79	164.02	65.27	95.32	543.87	1,251.13	1,896.51
Tax Expense/(Benefits)	61.35	9.13	24.00	148.99	314.89	367.32	55.43	16.76	24.00	150.51	314.89	368.39
Profit/(Loss) for the period	123.76933	28.23	70.92	388.85	950.56	1,543.46	108.59	48.51	71.33	393.36	936.25	1,528.11
Other Comprehensive Income	0.11	0.19	24.57	1.81	73.71	-	0.11	0.19	24.57	1.81	73.71	-
Total Comprehensive Income for the period	123.88	28.42	95.48	390.66	1,024.26	1,543.46	108.70	48.70	95.89	395.17	1,009.95	1,528.11
Paid up equity share capital	10,676.91	10,676.90	4,570.33	10,676.91	4,570.33	9,140.66	10,676.91	10,676.90	4,570.33	10,676.91	4,570.33	9,140.66
Other Equity excluding Revaluation Reserves	-	-	-	-	-	2,571.16	-	-	-	-	-	2,549.63
Earnings per Equity Share of 1 each	0.01	0.00	0.02	0.04	0.22	0.28	0.01	0.00	0.02	0.04	0.22	0.27

The above standardier manical results have been reviewed and recommended by the Addit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting at the registered office here of the January 2025. The Statutory Auditor of the Company has issued the Limited Review report on above Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Month Ended 31st December, 2024 in terms of the Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The results of the Company are also available for investors at www.integraessentia.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com

Deepak Kumar Gupta (Whole time Director cum CEO)

Date : 07 February 2025

इण्डमंइड बैक विगिरेट रिजस्टर्ड कार्यालय 2401, जनरल थिगमया राई (ईस्ट स्ट्रीट), कैन्टेनमेन्ट, पुणे-411001, कन्ज्यमर विकेजन निगम कार्यालय 34, जी. न बैदी रोड- टी नगर बैनई - 6000' क्षेत्रीय कार्यालय 5 वी मंजिल यूगिक, समायर विल्डिण आम्रपाली सर्विक के पास विर्वन्स राडे -वेश्वीन वार, ज्यापुर, राजस्थान

परिशिष्ट ।नियम 8 (I) देखें। कब्जा नोटिस

जबिक निम्न हस्ताक्षरकर्ता <u>इण्डसंइड बैक लि०</u> (संस्था का नाम) का अधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (२००२ का अधिनियम संख्याक ५४) वे अन्तर्गत एवं धारा 13 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित, ऋणी Borrowers / Mortgagor/ Guarantor Mr. Surgyani Gurjar C/o Shyonath, Hansa Devi C/o Surgyan Gurjar पर मांग सूचना दिनांक 17/03/2022 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर रूपये Rs. 8,41,514.51 (in words Rupees Eight lakh Fourty One thousand Five hundred Fourteen and paisa Fifty One only<u>) (ऋण खाता संख्या RJL05277M</u> , RJL05278M, RJL05354M <u>बाबते)</u> एवं भविष्य में अर्जित होने वाले ब्याज का पुर्नभुगतान करने के लिए मांग सूचना को जारी किया

न्द्रणी द्वारा राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल हो जाने पर, एतदद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्महस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 03 माह February वर्ष 2025 को उपरोक्त कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, उस नियम के नियम 9 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पति के कब्जे को ले लिया।

ऋणी को विशेष या आम जनता के साथ एतददारा सम्पति साथ कार्य नहीं करने की चेतावनी दी जाती है औ म्पित्ति के साथ किया गया कोई कार्य रूपय Rs. 8,41,514.51 (in words Rupees Eight lakh Fourty One thousand Five hundred Fourteen and paisa Fifty One only) की राशि और उस पर ब्याज के लिए <u>इण्डसंइड बैंक लि०</u> (संस्था का नाम) के प्रभार के अनुसार होगा।

संपत्ति का विवरण

All that part and parcel of the immovable property of Mr. Surgyani Gurjar / Hansa Devi consisting of land & building, structures, erections, installations, etc. situated at Patta No. 13, Book No. 15, Village-Anantpura, Gram Panchayat,-Lakhri, Th.-Bansur, Dist-Alwar Rajasthan. Admeasuring 127.11 Sq. yard.

On the North by: Bhagirath, Nihal Singh & Open Land, On the South by: Self Land & Madan Plot, On the East by: Self Open/Road, On the West by: Bhagirath, Nihal Singh & Open Land प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: 3/02/2025

इंडसइंड बैंक लिमिटेड स्थान :- Jaipur

कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 301, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान), फोन : 0141-2943037, 9468671121 CIN : L67120RJ1990PLC005371, ई: मेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, वेबसाईट : www.continentalsecuritiesltd.com 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

5114(1.4() 2024 41 (1.114) (1.116) Q4 11.1161	411119 111	or and with	(11-4-41/-11-1	1 4/144(-	471 (11)	(0.11011)
विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त पिछली तिमाही	गतवर्ष के अंत मे समाप्त तिमाही	समाप्त नौमाही	गतवर्ष के अंत मे समाप्त नौमाही	गत वर्ष समाप्ती
	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	80.62	65.22	39.83	210.66	115.57	158.55
कर के बाद शुद्ध लाभ /(हानि)						
(कर, असाधारण और ⁄ या असाधारण वस्तुओं से पहले)	57.44	49.85	28.07	154.14	75.02	104.29
कर के पहले शुद्ध लाभ /(हानि) (असाधारण और /या असाधारण वस्तुओं के पहले)	57.44	49.85	28.07	154.14	75.02	104.29
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं के बाद)	42.57	37.31	21.01	114.98	56.23	76.38
अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)						
के लिए लाभ ⁄हानि	42.57	37.31	21.01	114.98	56.23	76.38
समता अंश पूंजी	525.06	525.06	425.06	525.06	425.06	489.06
रिज़र्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)	898.91	856.34	375.96	898.91	375.96	652.12
आय प्रति शेयर (रु. 10 /- प्रति का)						
मूल	0.16	0.14	0.10	0.44	0.26	0.31
तरल	0.16	0.14	0.10	0.44	0.26	0.31

टिप्पणी : उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाईट (www.continentalsecuritiesItd.com) पर उपलब्ध है। **नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके इसे एक्सेस**



IPL

Place: Lucknow

Date: 08.02.2025

स्थान : जयपुर दिनांक : 08.02.2025

कृते कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

राजेश खूंटेटा

(प्रबन्ध निदेशोंक ।

DIN: 00167672

Place: New Delhi

Date: 08.02.2025

INDIA PESTICIDES LIMITED

CIN No.: L24112UP1984PLC006894

Regd. Office: 35-A, Civil Lines, Bareilly – 243 001, Uttar Pradesh, India. Tel:+91 0581 2567459 Corporate Office: Water Works Road, Swarup Cold Storage Compound, Aishbagh, Lucknow - 226 004, Uttar Pradesh Tel: +91 0522 2653602 Email: investor@indiapesticideslimited.com Web: www.indiapesticideslimited.com

	EXTRACT OF FOR THE QUAR		ONSOLIDATEI MONTHS ENI				(Rs. in Crore)
SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1. 2.	Total Income from operations Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	172.22 23.21	228.78 33.60	150.68 32.49	621.37 84.21	554.09 81.20	680.41 82.30
3.		23.21	33.60	32.49	84.21	81.20	82.30
4.		16.07	25.91	23.99	62.01	59.92	60.17
5.	Total comprehensive income for period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	16.14	25.91	24.08	62.13	60.20	60.37
6. 7.	Èquity Share Capital	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52 813.39
8.	Earning Per Share (Face Value of Rs. 1 each) (Not annualised)						
	1. Basic 2. Diluted	1.40 1.40	2.25 2.25	2.09 2.09	5.39 5.39	5.23 5.23	5.24 5.24

	2. Diluted	1.40	2.23	2.09	3.39	3.23	3.24
	SUMMARY OF KEY STAI	NDALONE UN	AUDITED FINA	ANCIAL RESU	LTS IS AS FO	LLOW:	(Rs. in Crore)
SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited)		Ended 31.12.2024	Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1. 2. 3. 4.	Total Revenue from Operations Profit before tax Profit after tax Total Comprehensive Income	172.22 24.36 17.36	228.78 34.26 26.48 26.48	32.95 24.41	86.04 63.90	554.09 81.45 60.15	83.78 61.19

Notes: (1) The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter ended 31 December, 2024 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 8 February 2025, and subjected to limited review by statutory auditors and filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company, (www.indiapesticideslimited.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) respectively. (2) The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("IND AS") prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (as amended).



Please scan the QR Code for Details

Sd/ Dr. K. Adeppa Whole- Time Director DIN 08987462

India Pesticides Limited

For and on Behalf of the Board

PUBLIC NOTICE

M/s Emaar India Limited

Registered Office: 306 - 308, Square One, C-2, District Centre, Saket, New Delhi- 110017 Phone No. 011-41521155, website: in.emaar.com CIN: U45201DL2005PLC133161

Notice in accordance with Notification No.18/30/09-5HG2/853 dated 12.6.23, issued by Punjab Govt. for issuance of Completion Certificate

M/s Emaar India Limited ("the Developer") is hereby publishing this notice seeking feedback from residents towards obtaining Partial Completion certificate for 9.791 acres of land consisting of 108 plots & roads situated in Sector 108 & 109 Mohali, Distt SAS NAGAR. The said plots/area are part of approved layout no. 2520/STP/SAS dated 21.11.2024.The inspection committee consist of DTP GMADA and other GMADA officers formed under above said notification shall visit the site on 21.02.2025 at 11.30 AM. Residents may extend their feedback, if any, before the said committee/officers on due date & time.

Place: Mohali Date: 09/2/2025

Authorized Signatory M/s Emaar India Limited

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016, Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com info@shivkamalimpex.com Website: www.shivkamalimpex.com

Extract of Unaudited Financial Results for the CIN: L52110DL1985PLC019893

C.C.	arter and Nine Months	ended b		•
				(Rs. In lakhs)
SI.		Quarter ended	Nine Months ended	Quarter ended
No.	Particulars	31-Dec-24 (Unaudited)	31-Dec-24 (Unaudited)	31-Dec-23 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	12.85	37.74	11.14
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10.26	29.89	8.54
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	10.26	29.89	8.54
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.68	22.37	6.39
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7.68	22.37	6.39
6.	Paid up Equity Share Capital	100.56	100.56	100.56
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized for quarter) Basic	Rs. 0.76	Rs. 2.22	Rs. 0.64
	Diluted	Rs. 0.76	Rs. 2.22	Rs. 0.64

Notes: The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee an approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s

held on 08-Feb-2025. The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results file with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financia Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.shivkamalimpex.com. The same can also be accessed by scanning the QR Code provided below



By the Order of the Board For Shivkamal Impex Limited Sd/ Manu Jair (Director) DIN: 07801467

शुद्धिपत्र फॉर्म ए

अल्फलाई <mark>प्राइवेट लिमिटेड</mark> (भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत) के लेनदारों के लिए 22.07.2018 को द पायनियर अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित सार्वजनिक घोषणा का संदर्भ लें। दिवाला पेशेवर के निम्नानसार बदला गया है: अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण संख्या परमिंदर सिंह भुल्लर (दिवाला पेशेवर) पंजी. संख्या IBBI/IPA-002/IP-N01127/2021 2022/13700, पताः ई-10/313, मंगल पुरी गली, घनुपुर रोड, खंडवाला, पानी की टंकी के पास, अमृतसर- 143104, प्रक्रिया विशिष्ट ईमेलः cirpalpfly@gmail.com

> परमिंदर सिंह भुल्ल-(दिवाला पेशेवर)

हस्ता/

पंजी. संख्या IBBI/IPA-002/IP-N01127/2021-2022/13700 पताः ई-10/313, मंगल पुरी गली, घनुपुर रोड, खंडवाला, पानी की टंकी के पास, अमृतसर- 143104, प्रक्रिया विशिष्ट ईमेलः cirpalpfly@gmail.com

繭

दिनांकः 08.02.2025

स्थानः मोहाली

जनसता

प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 305, इलाइट हाउस, तृतीय तल, 36, सामुदायि केंद्र, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नमरुपपुर, नई दिल्ली– 110048 सीआईएन : एल25209डीएल1992पीएलसी049590,

सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की घारा 110 और घारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपर्न (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए') द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के साथ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धत गयित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 44 ("सूचीबद्धता विनियम गरतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस –2") और अन नागू कानून, नियम विनियम (इस समय लागू और समय–समय पर संशोधित किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया ('ई-वोटिंग') के माध्यम से पोस्टल बैलट के जरिए निम्नलिखित मामलों के लिए कंपनी के सदस्यों की मंजरी मांगी जा रही है

प्रस्ताव / प्रस्तावों का प्रकार	समाधान										
विशेष	श्री मनीष बाजोरिया को कंपनी के अकार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप मे नियुक्त करना।	Ť									
साधारण	वित्तीय वर्ष 2025—2026 हेतु आरएमजी पॉलीविनायल इंडिया लिमिटेड के साथ सामग्री से संबंधित पार्टीगत लेनदेनों का अनुमोदन करना।	Ť									
0 0 1: 1											

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने सोमवार, 27 जनवरी, 2025 को पोस्टल बैलट ('नो आइस') की सुच ्राज्य कर किया है. इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनकी ई-मैल आईर्ड कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत थीं और जिनके नाम शुक्रवार, 31 जनवरी, 2025, यानी कट ऑफ तारीख करना) विजायित से ताम जाए का ताम जान का मुख्या, 51 जाना है, 222, बान बर आहर ताक कंपनी / डिपॉपिजिटरी द्वारा बनए गए सदस्यों के रिजस्टर/ लामकारी मातिकों की सुची में दिखाई दिये नोटिस की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट, यानी www.premierpoly.com, निवेशकों के अनुमाग में, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनत स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमश् www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और ईं–वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट यानी सेंट्रक डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ('सीडीएसएल') की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। इर ांभरता बेंदिर राजिया के राजिया के साथ पोस्टल बैतेट फॉर्म ऑस प्रीप्ट विकास रिपाई दिलाए पोस्टल बैतेट के लिए सदस्यों को नोटिस के साथ पोस्टल बैतेट फॉर्म ऑस प्रीपेड विजयेस रिपाई दिलाए नहीं भेजा जाता है और सदस्य ए–वोटिंग के माध्यम से वोट कर सकते हैं। वोटिंग अधिकारों की गण ाहा नेपा जाता के कार स्वरंप रूप्यांट्रा के नाव्यन से पाट कर सकते हैं। जाएंगे जावकार का गंगा कट-ऑफ़ तिथि पर सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयर के बुकता मूल्य पर की जाएंगी जो व्यक्ति कटना तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे नीटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। कंपनी ने सदस्यों के ए—वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं। वर्तमान लागू नियामक आवश्यकताः हे अनुरूप, सदस्य उक्त प्रस्तावों पर केवल ई-वोटिंग के माध्यम से वोट कर सकते हैं जो सोमवार, 10 फरवरी 2025 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा और मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को शाम 05:00 बजे

इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार वो डालने के बाद, सदस्यों को इसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वे सदस्य जिनका नाम कंपने के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए लामकारी स्वामियों के रजिस्टर में कट—ऑफ तिष्टि भागि सुकारा २ जानवर्ष, 2025 को दर्ज किया गया था, उक्त प्रसावीं पर अपना वोट देने के हकदार हैं। जिन सदस्यों के ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं हैं और इसलिए, उन्हें अमी तक उक्त नोटिस प्राप्त नहीं हुअ है, वे अपना विवरण निमानिशित तरीके से पंजीकृत कर सकते हैं : डी. वे अपना विवरण निमानिशित तरीके से पंजीकृत कर सकते हैं : डी.मैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि

अपने संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयः रखने वाले सदस्य जिनके ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बीटल फाइनेंशिय एंड कंप्यटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) को beetalrta@gmail.com पर मेल भेजकर अपना ईमे पता पंजीकृत/ अपडेट करें या 011–26051061 या 011–26051064 पर संपर्क करें। किसी भी प्रक्र की स्थिति में, आप helpdesk.evoting@cdslindia.com के डाउनलोड अनुमाग में उपलब्ध सदस्यें

के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ईं-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) से www.evotingindia.com पर या 02— 23058738 और 022—23058542/43 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं। पोस्टल बैलट के परिणाम गुरुवार, 13 मार्च 2025 को घोषित किए जाएंगे।

घोषित परिणाम, जाँचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.premierpoly.com और सीडीएसए ही वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध होंगे। ऐसे परिणाम कंपनी द्वारा बीएसई और एनएस की वेबसाइटों पर भी अपलोड किए जाएंगे, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कृते प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड हस्ता./·

IKIO Lighting Limited (Formerly IKIO Lighting Private Limited) CIN No.L31401DL2016PLC292884 Registered Office: 411, Arunachal Building, 19 Barakhamba Road, Connaught Place, Delhi-110001

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31-DEC-2024

	Quarter Ended Half Year Ended										
SI No.	Particulars	3 Months Ended 31-Dec-2024		Corresponding 3 Months Ended	9 Months Ended 31-Dec-2024	Corresponding 9 Months	Year ended Previous Year Ended 31-Mar-2024				
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)				
1.	Total income from operations	1,215.16	1,250.38	1,168.87	3,735.92	3,431.62	4,379.53				
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	93.73	165.17	248.09	416.18	695.46	845.10				
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax	33.73	100.17	240.00	+10.10	033.40	043.10				
Ο.	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	93.73	165.17	248.09	416.18	695.46	845.10				
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	77.98	129.21	189.56	330.89	510.48	605.71				
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income										
	(after tax)]	82.86	126.98	189.53	333.37	510.40	607.19				
6.	Equity Share Capital	772.81	772.81	772.81	772.81	772.81	772.81				
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of										
	the previous year						4,755.25				
8.	Earnings per equity share (Face value of Rs. 10 per equity share)										
	-Basic (in Rs.)	1.01	1.67	2.56	4.28	6.90	8.09				
	-Diluted (in Rs.)	1.01	1.67	2.56	4.28	6.90	8.09				
Notes to the consolidated financial results :											

IKIO Lighting Limited ("the Company" or "the Holding Company") and its subsidiaries are together referred as "the Group" in the followin notes. The Holding Company conducts its operations along with its subsidiaries. The consolidated financial results are prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) as specified in Section 133 of the Companies Act, 2013 and as per Regulation 33 of the SEBI (Listin Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulation).

The consolidated unaudited financial results of the Group for the quarter and nine months ended December 31, 2024 have been reviewed by

the Audit Committee and were subsequently approved by Board of Directors ('the Board') at its meeting held on February 07, 2025. These

the Adult Continuite and were subsequently approved by board of precious (line board) at its meaning find on rebidary 67, 2020. These consolidated financial results have been subjected to a limited review by the Statutory Auditors of the Company.

The Group's primary business segment is reflected based on principal business activities carried on by the Group. As per Indian Accounting Standard 108 as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified in Section 133 of the Companies Act, 2013, The Group deals in one business segment namely "Manufacturing of LED Lighting.

Previous period/year figures have been re-grouped/	re-classif	ied wh	nerever n	ecess	ary, to	conform to	curren	nt perio	d's classif	icatio	٦.
STATEMENT OF UNAUD											
FOR THE QUARTER A	ND N	IINI	Е МС	TNC	HS	END	ED:	31-I	DEC-	202	24
										(₹ In Million)
	Quarter Ended					Ha	Year ended				
			-		•						

СI		(Quarter Ended	l	Half Year	Ended	Year ended	
SI No.	Particulars	3 Months Ended 31-Dec-2024	Preceeding 3 Months Ended 30-Sep-2024	Corresponding 3 Months Ended 31-Dec-2023	9 Months Ended 31-Dec-2024	Corresponding 9 Months Ended 31-Dec-2023	Previous Year Ended 31-Mar-2024	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1.	Total income from operations	451.28	576.99	594.23	1,693.95	1,884.65	2,409.76	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,							
	Exceptional and/or Extraordinary items)	64.51	79.33	88.37	262.36	327.63	391.56	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax							
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	64.51	79.33	88.37	262.36	327.63	391.56	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax							
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	51.03	66.46	67.92	204.23	241.71	286.76	
5.	Total Comprehensive Income for the period							
	[Comprising Profit / (Loss) for the period							
	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	51.03	65.60	67.89	203.37	241.63	287.20	
6.	Equity Share Capital	772.81	772.81	772.81	772.81	772.81	772.81	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	112.01	112.01	112.01	112.01	112.01	112.01	
٠.	as shown in the Audited Balance Sheet of							
	the previous year						4,026.02	
8.	Earnings per equity share						,	
	(Face value of Rs. 10 per equity share)							
	-Basic (in Rs.)	0.66	0.86	0.92	2.64	3.27	3.83	
	-Diluted (in Rs.)	0.66	0.86	0.92	2.64	3.27	3.83	

principles of Indian Accounting Standards as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) as specified in Section 133 of the Companies Act, 2013 and as per Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 (Listing Regulation).
The standalone unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and were subsequently approved by Board of Directors ('the Board') at their respective meetings held on February 07

2025. These standalone financial results have been subjected to a limited review by the Statutory Auditors of the Company.

The Nomination and Remuneration Committee of IKIO Lighting Limited (the "Company") has approved the grant of Stock Options (ESOS convertible into equal number of Equity Shares of the Company of face value Rs. 10/- each, under the ILL Employee Stock Option Scheme 2022 ("Scheme") to eligible employees of the Company and its subsidiary companies at the meeting of the Nomination and Remuneration Comr held on January 08, 2025.

Other notes: The above presentation is an extract of the detailed format of quarterly/ nine months/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quartely /nine months annual financial results are available on the company's website (https://ikio.in/) and on the website of BSE (http://www.bseindia.com) an National Stock Exchange of India Limited (https://www.nseindia.com).

Previous period/year numbers have been regrouped/reclassified wherever considered necessary

Registered Office: 411, Arunachal Building, 19 Barakhamba Road, Connaught Place, Delhi-110001 For and on behalf of the Board of Directors of IKIO Lighting Limited Sd/-Sd/-

Atul Kumar Jain Sanjeet Singh CFO Whole Time Director DIN: 08353656

Place: Noida

Date: February 07, 2024